

CIN NO.: U74900DL2013PLC329536

December 12, 2023

To.

National Stock Exchange of India Limited

The Listing Department Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051 (Maharashtra)

NSE SYMBOL: QUICKTOUCH ISIN: INEOK4D01020

SUB: NEWSPAPER PUBLICATION(S) FOR ADDENDUM TO THE NOTICE OF THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING (EGM) OF THE COMPANY

Dear Sir / Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with Part A, Para A of Schedule III and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copies of the newspaper advertisement published in the Jansatta and Financial Express, regarding addendum to the notice of the Extra Ordinary General Meeting (EGM) of Quicktouch Technologies Limited ("the Company") to be held on Friday, December 15, 2023 at 1:00 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM").

You are requested to take on record the above information.

Thanking you, Yours faithfully,

For Quicktouch Technologies Limited

Kajal Goel **Company Secretary** M. No. 66838

FINANCIAL EXPRESS

IFL HOUSING FINANCE

Regd off:- D-16 First Floor, Prashant vihar, Delhi-110085 I CIN- U65910DL2015PLC285284 The borrowers in specific and the public in general are hereby notified that the public auction of gold

ornaments pledged in the below accounts is proposed to be conducted at regd office on 28-12-2023

NRL10050000024958. Khajuri Khas Branch - Loan No.: , KJK10010000022073

KJK10090000023797 KJK10010000021734 KJK10020000023341 KJK10090000024424

KJK10020000023906, Mayur Vihar Branch - Loan No.: MV110090000024479.

MV1150000016669, MV110090000023970, MV110090000024123, MV1260000017115

MV110020000024798 , MV110010000021865, MV110020000024456, MV110020000024399

MV110090000024462, MV110020000024761, MV110090000024995, MV110090000025771

MV110090000023575, MV1260000019598, MV110010000024645 , MV110020000024559 MV110020000024636, Nangloi Branch - Loan no., NGI140000005345, NGI10010000023424

NGI10090000025152 , NGI10010000024270, NGI10050000023636, NGI10020000024487

NGI10090000024544, NGI10050000024875, NGI260000021362, NGI20000006990 NGI10010000024134, NGI10010000024902, NGI10090000025418 , NGI10030000024344 NGI10050000025284, NGI10050000025724, NGI10050000024817, NGI10050000025472 NGI10050000023730, Karnal Branch - Loan No.: , KNL10050000023689, KNL10050000023677

KNL10050000024345, KNL10050000023881, KNL10050000025567, KNL10050000024252,

KNL260000016469, KNL10050000024746, KNL10050000024340, KNL10050000025445

KNL260000012624, KNL10090000024474. Chanderlok Branch - Loan No

CDL10050000024475, CDL10020000023777, CDL10090000024051, CDL200000009083 CDL10090000024077, CDL10090000024824, CDL260000014629, CDL10050000025463

CDL10090000023268, CDL260000013775, CDL10050000025314, CDL10090000025694

CDL10050000025498, CDL260000021586, CDL10090000025356, CDL10090000024334

CDL200000012489, CDL10050000025500, CDL10090000024081, CDL10090000023499,

CDL260000016547, CDL10050000022608, CDL10050000025308, CDL10030000024006,

CDL1050000015472, CDL260000019999, CDL10050000025327, CDL10050000024498,

CDL10050000024246, CDL10050000025404, CDL10090000024916 Shyam Nagar Branch - Loan

SMN10050000024823, SMN10090000024191, SMN260000014197, SMN10010000023281

SMN10090000025025, SMN10090000024194, SMN10050000024748, SMN10010000024839

SMN10010000023419, SMN980000014829, SMN260000021230, SMN980000016635,

SMN10050000025727, SMN10070000024769, SMN10030000025573, Trinagar Branch - Loan

No , TRN10020000025310, TRN10090000024418, TRN10090000023344, TRN10010000024281,

TRN10090000025870, TRN10090000025662, TRN10070000024408, Hastsal Village Branch

Loan No.: HST10090000024829 , HST990000016595, HST260000020918, HST10090000024076.

HST10090000025431, HST260000010689, HST260000018349, HST260000008221

HST260000014154, HST260000010623, HST10090000025878, HST10020000025585,

HST10090000023882, HST10090000025362, HST10050000025124, HST260000016721

HST10090000025891, HST10090000025488, Uttam Nagar - Loan no.: , , UTN10010000025888,

UTN10010000024003 , UTN10010000023763, UTN150000018690, UTN10090000023606

UTN10010000022828, UTN10010000023975, UTN10010000024151, UTN10090000024317

UTN10010000023983, UTN10010000025030, UTN140000006140, UTN10010000024996

RHN10010000024954, RHN10010000025493, RHN10050000024264, RHN10010000025387,

RHN10010000025527 , RHN140000005069, RHN200000017397, RHN10050000022954

Vishwas Nagar - Loan No.:- UTN10010000023983, UTN10010000025030, UTN140000006140.

VHN26000018153, VHN10010000024265, VHN10010000024200, VHN10020000025592

VHN10010000025363, North Ghonda - Loan no.:- NGD10010000024598, NGD10050000025164

NGD10050000025094, NGD10020000024850, NGD10030000025136, NGD260000020273

NGD10090000025456, NGD990000021388, NGD10030000024240, NGD140000007730,

NGD10090000024953, NGD10050000025619, NGD10010000024336, NGD10050000025117

If the auction does not get completed on the same day due to any reason, the same will be conducted

on 29-12-2023 at regd office. Interested bidders should submit Rs. 100000/- as EMD, also bidder has to deposit the EMD latest by 27-11-2023 through online mode. The bidders should carry valid ID

. VHN980000017946.

UTN260000021478, UTN10010000023962, UTN10010000024688

UTN10010000024996, UTN10010000024415, UTN10010000022248,

VHN10010000023397, VHN10010000025264, VHN10050000024787,

NGD10090000025402, NGD10010000025255, NGD260000020685

Card/Pan card/ GST Certificate. For more details please contact 8595010101

NGD260000015387, Delhi HO - Loan no. - LNDEL02121-220006725.

Authorised officer, For IFL Housing Finance Ltd

UTN10010000024415, UTN10010000022248, Rohini Branch - Loan No..: RHN98

SMN10010000023638, SMN10010000023572, SMN10030000024450,

CDL10090000025246, CDL10050000024472, CDL10090000025754

CDL10030000023548, CDL260000013248, CDL10090000025887, CDL260000017562

KJK150000017255, KJK10010000021911, KJK10090000025459.

KJK10010000022996, KJK260000011204, KJK140000006796

KNL10030000022030, KNL10050000025650 , KNL10050000023487,

from 02.00pm onwards on which customers failed to make payment

Adarsh Nagar Branch - LoanNo. ASN10010000024300.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

OFFICE 1 DELHI (SOUTH) Delhi (South-East) Delhi (South-East), New Delhi, Delhi (East), Delhi (South-West) Delhi (South)

(MS Office, E-mail, Internet etc.), however qualification like M.Sc. (IT)/BE(IT)/MCA/MBA will be given preference. (Should be in the age group of 21-45 Years).

Private Banks/Co-operative Banks) up to the rank of Senior Manager (Scale 3) or Retired Clerk and equivalent of Central Bank of India having passed JAHB with good track record. (Age Limit-64 Years).

Contract Basis for 1 Year: Fixed Component: Rs.15,000/-+ Incentive: up to Rs.10.000/- (max) + Conveyance Allowance : Rs.4.000/- + Mobile Internet Charges - Rs.500/-

and downloaded from our Bank's website www.centralbank.co.in You can submit duly filled application latest by 20.12.2023 at our Regional Office - Central Bank of India, Regional Office, Delhi South, Plot No.04, 3'

(Regional Head), Central Bank of India



CIN:U74900DL2013PLC329536 Regd. Off: Office No. 203, Second Floor, D- Mall, Netaji Subhash

E-mail: info@quicktouch.co.in, Website: www.quicktouch.co.in Tel: +919667009283

Place, Pitampura, New Delhi-110034 through Video Conference ("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM").

forming a part of Special Business to be transacted at the forthcoming EGM of the Company and the addendum shall be deemed to be an integral part of the original Notice dated November 16, 2023 together with notes and statements contained therein.

either by Remote e-Voting or at the AGM.

the Members of the Company which is also available on the website of the Company at www.quicktouch.co.in.

In case of any grievances relating to e-voting, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, at 25th Floor, A Wing, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, NM Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400 013; Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com or aforesaid number or contact the

For Quicktouch Technologies Limited

Place: Delhi Date: December 11, 2023

Kajal Goel **Company Secretary**

respect to Lot No. 12, a Refundable

SALE NOTICE

The bidding of the assets stated in the below table shall take place through online e-auctio ervice provider, M/s MSTC Limited (MSTC) via website www.mstcecommerce.com

Deposit of Rs. 5 Lakhs is required to be submitted by the prospective applicants From 30.01.2023 to 05.01.24 Site Visit / Inspection Date Last Date for Submission of EMD 08.01.2024 On 10.01.2024 tentatively from 01:00 P.M. to 05:00 P.M. Date and Time of Auction

SI. Following group / lot of assets available for No. sale in e-auction near Wardha, Maharashtra Lot 5: GRP Pipes 1100 mm Diameter 33,65,793.00 3,36,579.00 Plus 18% GST 2,37,37,698.00 23,73,770.00 2. Lot 7: 765 KV Switchyard Material 49,00,000.00 3. Lot 8: 4,90,00,000.00 Plus 18% GST 3,74,38,500 4. Lot 12: 37,43,85,000.00

'All those applicants who have earlier submitted the Bid Application Form in any of the earlier e-auctions need only to send an undertaking confirmation by email and hard copy that new schedule and terms & conditions of the 14th E-Auction Sale are acceptable

nterested applicant may refer to complete 14th E-Auction Process Information Documer E-Auction at any time without assigning any reason. For any query regarding e-auction bidding, Contact: Ms. Unneti Saini at +91-7471118456 or MSTC Limited Helpdesk Nos. 011-23212357/23215163/23217850 E-mail: nroopn7@mstcindia.in and for asset / sale elated issues please contact Mr. Vijay Kumar Garg, Liquidator at +91-9673241061 or e-mail at liquidation_lvtpl@sumedhamanagement.com or contact Ms. Sukhjit Kaur a Mob: +91 9038685318.

Vijay Kumar Garg, Liquidator

n the matter of Lanco Vidarbha Thermal Power Limited Reg. No. IBBI/IPA-002/IP-N00359/2017-18/11060 Project Specific Address for Correspondence:

Reg. Email Id:

Gurugram - 122101, Haryana. gargvijay1704@gmail.com Mobile No. +91- 9611938833

Email Id (Process specific): liquidation lytpl@sumedhamanagement.com Date: 12.12.2023

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

REGIONAL OFFICE: Central Bank of India 37/2/4 Sanjay Place, Agra-282002

Date of Demand Notice Date of

POSSESSION NOTICE Appendix-IV [Rule 8(1)] (For Immovable Properties)

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Central Bank of India, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement Security Interest Act 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued Demand Notice calling upon the borrower(s)/guarantor(s)/ mortgagor(s) mentioned in the schedule below to repay the amount nentioned in the demand notice within 60 days from the date of receipt of the said notices.

The borrower(s)/guarantor(s)/mortgagor(s) having failed to repay the amounts, notice is hereby given to borrower(s)/guarantor(s)/ mortgagor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on the date mentioned in the (first) schedule below.

The borrower(s)/guarantor(s)/mortgagor(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Central Bank of India for the amount mentioned the schedule. The borrower's/guarantor's /mortgagor's attention is invited to the provision of Sub Section (8) of Section 13 of the Act, in respect time available to redeem the secured assets

Branch Office: TUNDLA

Name of the Borrower/Guarantor & Address	Details of the Mortgaged Properties on which possession taken	Date of Demand Notice & Due Amount	
Subash Chandra Jain	Equitable Mortgage of all that part and parcel of A Residential Property in the name of Mr.	Rs.10,17,376/-	1
Nagar, Mauza kakrau Tehsil & Dist. Firozabad-283203	Jitendra Jain S/o Mr. Subash Chandra Jain Situated at Khasra No. 132, Mohalla Anand Nagar, Mauza kakrau Tehsil & Dist.	Seventeen three hundred Seventy	

Place: New Delhi

Guarantor/s- 1. Mrs. Sapna jain W/o Firozabad-283203 Area of property- 1500.00 Six Only) as on Add:1.Khasra No. 132, Mohalla Anand Mortgaged Property Are as under: North-Plot subsequent Nagar, Mauza kakrau Tehsil & Dist. of Shyam Babu, South-Plot of Sher Singh, interest and

irozabad-283203. Add:2. H.No. 83, Mandir Wali Gali, Hari Rasta 20ft. wide.

Nagar Jalesar Road, Firozabad-283203. Branch Office: SHIKOHABAD

Mr. Chandra Pal Singh, Firozabad

Date: 11.12.2023

Borrower/s 1. Mr. Rukam Pal Singh S/o Equitable Mortgage of all that part and 17.09.2021 parcel of Residential property in the name of Rs8,76,890.00 Add:- Mohalla- Katra Meera, Ward No. 4 Mrs. Pinki W/o Mr. Rukam Pal Singh Baghel, (Rupees Eight lakh Seventy Six Etah Chauraha Shikohabad, District Situated at Mohalla- Katra Meera, Ward No. Town & Tehsil Shikohabad, District hundred Ninety

Details of the Mortgaged Properties on

2. Mrs. Pinki W/o Mr. Rukam Pal Singh, Firozabad. Area of property- 66.91 Sq. Add:- Mohalla- Katra Meera, Ward No. 4 Meter, Boundaries of Mortgaged Property subsequent Etah Chauraha Shikohabad, District Are as under: North-House of Murari Lal, interest and South- House of Vinod Kumar Upadhyay, (Less if any East-House of Wakeel Sahab, West-Rasta 8 feet wide.

Authorised Officer

in same denomination remain in circulation at the same time

as coins have a long life.

Coins of different designs



 Do not believe in misleading information or rumours about coins

 Bank branches are required to accept coins from the public*

*Terms & conditions apply



Issued in public interest by भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA

RBI Kehta Hai..

Jaankaar Baniye.

Satark Rahiye!

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

For more details, give a missed call to 14440

or visit https://rbikehtahai.rbi.org.in/coins

For feedback, write to rbikehtahai@rbi.org.in

PICICI Bank | Branch Office. 1010005 Branch Office: ICICI Bank Ltd, 3rd Floor, Plot No- 23, New Rohtak Road,

The undersigned being the Authorized Officer of ICICI Bank Limited under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued demand notices upon the borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

As the borrower failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of ICICI Bank Limited.

Sr. No.	Name of the Borrower/ Loan Account Number	Description of Property/ Date of Symbolic Possession	Date of Demand Notice/ Amount in Demand Notice (Rs.)	Name of Branch
	LBGHZ00005767914	Flat No.1206, 12th Floor, Tower A, Nagar Nigam Sky Tower, Awas Vikas Colony, Sasni Gate, Aligarh/ December 07, 2023	February 25, 2023 Rs. 37,86,318/-	Delhi & NCR/ Aligarh

the mortgaged properties will be sold on the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice, as per the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

Date: December 12, 2023 Authorized Officer Place: Aligarh ICICI Bank Limited

conversion of public company into a private company Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs, Northern Region, New Delhi In the matter of section 14 of the Companies Act, 2013 and Rule 41 of the Companies (Incorporation)

"Form No. INC-25A"

dvertisement to be published in the newspaper for

n the matter of M/s. RBRL AGRO COMMODITIES LIMITED (CIN:U01403DL2007PLC165440) naving its registered office at 4088-4094. Nava

NOTICE is hereby given to the general public that the company intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a private limited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on Thursday, 30° November, 2023 to enable the company to give effect for such conversion. Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the company may

deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the concerned Regional Director, Ministry of Corporate Affairs, Northern Region, B-2 Wing, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office address mentioned below 4088-4094, Naya Bazar, Delhi 110006 For and on behalf of the Applicant

RBRL AGRO COMMODITIES LIMITED (Rajinder Prasad Singhal) Place : Delhi Date: 11.12.2023 DIN: 00171381

बैंक ऑफ़ बड़ीदा Bank of Baroda DENA MANK

Regional Office: Sanjay Place, Agra Mob: 8477009315

E-AUCTION

[Appendix IV-A (Provision to Rule 8(6) & 6(2)] Sale Notice for Sale of Immovable Properties

SALE NOTICE

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provision of Rule 8 (6) & 6 (2) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantors(s) that the below described immovable Property mortgaged/ charged to the Bank of Baroda, the Symbolic/Physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Bank of Baroda, will be sold on "As is

		the debts due to Bank. Further details of property are me	The same of the sa	
Name & Address	Demand Notice Date	D	Type of	Reserve Price (Rs.)
of Borrowers/ Guarantors	Total Dues (Rs.)	Description of Properties		Did become
Branch: Shastripuram, Agra, Mob: 84770094	02			
rrower- Mr. Damodar Prasad Sharma S/o Mr. Ram Kishan arma, Guarantor- 1) Mrs. Krishna Devi W/o Mr. Damodar Prasad	20-02-2020	Land and Building at EWS House No 325, Block A, Shastri- puram Yojna, Lohamandi Ward, Teh. & Dist. Agra, Area-		10,17,000/-
arma, Add. of both- EWS House no. 325, Block- A, Shastripuram		27 sq. mtr., Property in the name of Mr. Damodar Prasad	ysi	1,01,700/-

Sharma, Add. of both- EWS House no. 325, Block- A, Shastripuram + Interest & other exp. | Sharma S/o Mr. Ram Kishan Sharma, Bounded as: East-Yojna, Lohamandi Ward, Teh. & Dist. Agra, 2) Mr. Ranjeet Singh, S/o Mr. Chunnoo Singh, Add.- EWS House no. 337, Block-A,

Shastripuram Yojna, Lohamandi Ward, Teh. & Dist. Agra Borrower- Mr. Pramod Kumar Mahor, Co-Borrower- Mrs. Madhu Mahor W/o Mr. Pramod Kumar Mahor, Add. of Both-E.W.S House No. 139, B- Block, Shastripuram Yojna, Lohamandi Ward Tehsil and District Agra, Guarantor- Mr. Bablu S/o Hari

Babu, Add.- Laxmipura, Nomil, Lalau Agra Borrower- Mr. Manoj Kumar Sharma, Co-Borrower- Mrs. Nisha Sharma W/o Manoj Kumar Sharma, Add. of both- EWS House no. 155, Sector-A, Shastripuram Yojna, Lohamandi

Ward, Teh. & Dist. Agra, Guarantor- Mr. Tei Singh S/o Sonelal, Add.- EWS House no. 153, Block-A, Shastripuram, Agra Borrower- Mr. Sanjay S/o Devi Singh, Add.- EWS House No.

20-02-2023

EWS House No. 265, West- Common Space & Exit, North- EWS House, South- EWS House No. 326 Land and Building at E.W.S. House No. B-139, Sector-B. Shastripuram Yojana Lohamandi Ward Teh, and Distt. Agra, 9,01,479.98 Area- 27.87 sq. mtr., Property in the name of Mr. Pramod + Interest & other exp. Kumar Mahor and Mrs. Madhu Mahor, Bounded as: East-EWS House No. B-140, West- EWS House No. B-133,

> North- EWS House No. B-132, South- Common Open Space Land and Building at EWS House No A-155. A Block, Shastripuram Yojna, Lohamandi Ward, Teh. & Dist. Agra. Area- 27 sq. mtr., Property in the name of Mr. Manoj Kumar Sharma, Bounded as: East- EWS House No. A-154, West-EWS House No. A-156, North- EWS House No. A-158, South-

Common Open Space Land and Building at EWS House No B-361, Block-B. Shastripuram Yojna, Lohamandi Ward, Teh. & Dist. Agra, Area- 27.87 sq. mtr., Property in the name of Mr. Sanjay S/o Devi Singh and Mrs. Rajkumari W/o Sanjay, Bounded as:

DATE OF E-AUCTION: 29.12.2023. Time: 02:00 PM to 06:00 PM.

Earnest Money Deposit (EMD) Shall be received latest by 28.12.2023, Property Inspection date & Time w.e.f. 27.12.2023 10.00 AM to 05.00 PM Interested Bidders can deposit EMD amount online through portal https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp by way of NEFT/UPI /Credit Card or Debit

INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002

This may also be treated as notice u/r 8(6) & 6(2)/Rule 9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 to the borrower/s and guarantor/s of the said loan about the holding of E-Auction Sale on the above mentioned date. Place : Agra Date: 12-12-2023

uated at Khasra No. 132, Mohalla Anand Seventeen Sq. Feet (139.5 Sq. Meter.) Boundaries of 25.10.2022 with B-361, Block -B, Near Police Chowki, Shastripuram Yojana, Lohamandi Ward, Tehsil & Distt. Agra, Co-Borrower- Mrs. Raj Kumari W/o Mr. Sanjay, Add.- EWS House No. B-361 East-Plot/ House of Manoj Kumar, West-expenses thereon (Less if any Sector-B, Near Police Chowki, Shastripuram Yojana, Lohamandi recoveries made) Ward, Tehsil & Distt. Agra, Guarantor- Mrs. Nidhi Mahor W/o Bablu, Add.- Laxmipur, Naumeel, Lalau, Distt. Agra

20-02-2023 6,43,583.32 Interest & other exp. East- EWS House No. B-366. West- Common Space. North-EWS House No. B-367, South- EWS House No. B-362

10,000/-

Card only. For further details of Terms & Conditions of Sale Please refer to link provided in Secure Creditor https://www.bankofbaroda.com STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) & 6(2)/Rule 9(1) OF STATUTORY

New Delhi

20-02-2023 8,55,669.06 Interest & other exp.

For detailed terms & Conditions

10,000/-

7,63,000/-

76,300/-

10,000/-

7,79,000/-


77,900/-

10,000/-

7,61,000/-

76,100/-





financialexp.epapr.in

Client, and that our Client shall be

absolutely entitled to purchase the Said Property, including possession thereof.

BC SUPERVISOR: 01 POST

Minimum qualification should be graduate with Computer Knowledge

b) For Retired Bank Employees:

Retired Officers (including voluntarily retired) of any bank (PSU/ RRB/

Application Form, eligibility and other requisite details can be obtained

Floor, Deshbandhu Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi-110005. **QUICKTOUCH TECHNOLOGIES LIMITED**

Place, Pitampura, New Delhi-110034 ADDENDUM TO THE NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL

MEETING (EGM The Notice dated November 16, 2023 has already been sent to the Members on November 21, 2023 for convening the Extra Ordinary General Meeting (EGM) of the Company scheduled to be held on Friday, December 15, 2023 at 01:00 PM. at the Registered Office of the Company at Office No. 203, Second Floor, D- Mall, Netaji Subhash

An additional Item No. 5 has been added in the aforesaid EGM Notice

Thus, the members are requested to take note of it and cast their vole The Addendum to the Notice of the EGM has already been circulated to

undersigned.

LANCO VIDARBHA THERMAL POWER LIMITED (IN LIQUIDATION)
CIN: U40100TG2005PLC045445
Registered Office: Plot No. 4, Software Units Layout, Hitec City,
Madhapur, Hyderabad - 500081, Telangana 14th E-AUCTION SALE NOTICE UNDER INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016 Notice is hereby given to the public in general under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and the regulations made thereunder that the assets of M/s Lanco Vidarbha Thermal Power imited (in Liquidation) ("Corporate Debtor") is being proposed to be sold collectively / or arcel basis under Regulation 32 (a) to (d) of the Insolvency and Bankruptcy Board of Indi (Liquidation Process) Regulations, 2016, on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER THERE IS", "NO COMPLAINT BASIS" AND "WITHOUT RECOURSE BASIS"

hrough e-auction platform. The said proposition for disposition is without any kind of warrantie

Submission of Requisite Forms, Affidavits, Refundable Deposit Amount to be submitted Rs. 1 Lakh, irrespective of the interes alongwith Bid Application Form n number of lot(s) expressed for with egards to Lot Nos. 5, 7 and 8. With

Boiler and Coal Mills Material in Custom Plus 18% GST

to them. They should also indicate afresh the Lots for which they are now applying along with the Refundable Deposit of Rs. 1 Lakh/ Rs. 5 Lakhs as applicable. # Subject to expected release by Custom Authorities. containing details with respect to e-auction Bid Application Form, Declaration and Undertakings Other Forms, Terms and Conditions with respect to the sale of assets and its online auction sale available on the e-auction platform www.mstcecommerce.com and also on the website of the Corporate Debtor at http://www.lancovidarbha.com. The Liquidator has the right to accept or reject or cancel any bid or extend or modify any terms of the

Res. Address: Flat No. 1402. Tower A, GPL Eden Heights, C/o Sumedha Management Solutions Private Limited B-1/12, 2nd Floor, Saldarjung Enclave, New Delhi - 110029. Sector 70, Darbaripur Road, Contact Number: 011-4165 4481/85

PUBLIC NOTICE that our Client is entering into a transaction to purchase entire property on

Plot No. N-44, Panchshila Park, New Delhi-110017 admeasuring 800 square vards, along with the ownership rights of the entire said plot of land (hereinafter referred to as the "Said Property") from Mrs. Gita Khanna. wife of Mr. Chander Vir Khanna resident of Canada and Mr. Vikram Dewan, son of Late Dr. Madan Lal Dewan. resident of USA. Any person or entity including bank or

financial institution having or claiming to

have any right, title, interest, demand in respect of the Said Property or to any part thereof, including but not limited to sale. collaboration, tenancy, agreement for sale, mortgage, gift, inheritance, partition, possession, decree or order of any court, acquisition, prohibition or any other impediment with respect of the Said Property or any part thereof and/or, having any objection, are hereby required to give notice in writing to the undersigned accompanied with documentary proof within 10 (ten) days from the date of publication hereof, failing which it will be presumed that no one has any objections for sale of the Said Property in favor of our

Claims and objections may be sent to: Sudeep Cecil / Disha Talwar

KNM & Partners 1st Floor, The Great Eastern Center 70, Nehru Place, New Delhi - 110 017 Email: knm@knm.in; scecil@knm.in Ph: 011 43115000

函.

दिनांक: 04.12.2023

18.12.23 15:00 15:30

18.12.23 15:00 15:40

18.12.23 15:00 15:50

18.12.23 15:00 16:00

18.12.23 15:00 16:10

कब्जा की तिथि एवं समय

07.12.2023

समय : 11.00 बजे

पूर्वा. तथा उसके बाद

प्राधिकृत अधिकारी, एचडीएफसी, बैंक लि.

द.पू.म.रेल्वे, रावपुर

नीलामी समय

से तक

ई-नीलामी सूचना

6 रायपुर स्टेशन में दो तथा आर्डिनरी चार पहिया पार्किंग हेतु निविदा 19.12.23 15:00 15:30

सभी ई–नीलामी अधिसूचना का विवरण वेबसाइट www.ireps.gov.in पर अपलोड किया गया है

f South East Central Railway **№**@secrail

कब्जा सचना (सांकेतिक) (अचल सम्पत्ति के लिये)

प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के साथ पठित परिशिष्ठ IV के अनुसार)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 वे

अंतर्गत एचडीएफसी बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002

के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग

सुचना तिथि 12.09.2023 जारी कर ऋणधारक/मार्टगैजर मै. वास्क्युलर एक्सेस सॉल्युशन्स, द्वारा उसके प्रॉप्राईटर

श्री मनोज कुमार, सुश्री शीतल वर्मा (गारंटर) को उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचन

में वर्णित राशि रु. 1,06,99,475.83/- (रु. एक करोड़ छः लाख निन्यानवे हजार चार सौ पचहत्तर पैसे तिड़ासी

ऋणधारक/गारंटर/मार्टगैजर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा/गारंटर/मार्टगैजर तथा आम

जनता को सुचित किया जाता है कि आज, नई दिल्ली में 5 दिसम्बर, 2023 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की

विशेष रूप से ऋणधारकों/मार्टगैजरों तथा आम जनता को एतदृद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित

संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 1,06,99,475.83/- (रु. एक

करोड़ छः लाख निन्यानवे हजार चार सौ पचहत्तर पैसे तिडासी मात्र) के साथ 01.09.2023 से उस पर आगे का

अचल सम्पत्ति का विवरण

टिप्पणी: उक्त सूचना को अधिनियम के नियम 6, 8 एवं 9 के अंतर्गत बिक्री के लिये 30 दिनों की सूचना मानी जाये

सार्वजनिक सुचना ारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड का

वेनियम 14 (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया)

विनिवम, 2017। डोरिंडा इंडिया कैंपिटल प्राइवेट

लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

कोरिंडा इंडिया कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

नई दिल्ली दक्षिणी दिल्ली -110019

मोबाइल नंबर: 9868476717

गुंजन मित्तल रजि: नंबर: IBBI/IPA-003/IP-N00361/2021-22/13756

पताः i–25A, एलजीएफ, लाजपत नगर–II, नई दिल्ली – 110024 टेलीफोन नंबर: 011– 45552681

कोरिंका इंडिया कैंपिटल प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापव

आईपी रजि. संख्या: IBBI/IPA-003/IP-N00361/2021-22/13756

गुंजन मित्तल

2,59,600/-

3,51,90,000/-

Closed

ई-मेल आईडी ip.gujanmittal@gmail.com

प्रासंगिक विवरण

3 प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट देनदार कंपनी श्विक्ट्रार- दिल्ली और हरियाणा के एनशीटी

5 कॉर्पोरेट देनदार के फंजीकृत कार्यालय और प्रधान **डवी मंजिल, पुंज एशेन डाउल, 17–18, नेडक प्ले**ल

इसके द्वारा सूचना दी गई है कि डोरिवा इंडिया कैंपिटल प्राइवेट लिमिटेव ने 08.12.2023 को स्वैष्धिक परिसमाप

होरिंडा इंडिया कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों को अपने दावों का प्रमाण 07.01,2024 की या उत्तरों पहले

वितीय ऋणदाता अपने दावे का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक मध्यम से प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी डितधारक अपने दावों

प्रविद्धि संख्या. ७. के सामने उत्लिखित पर्त पर परिसमापक को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इसेक्ट्रॉनिक मध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

दाये के झूठे या भ्रामक सबूत प्रस्तुत करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

08.12.2023

कॉर्पोरेट पहचान संख्या / कॉर्पोरेट देनदार की 1)65990DL2019PTC346869

मात्र) के साथ 01.09.2023 से उस पर आगे का ब्याज तथा चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

विशेष प्रचालन विभाग-एचडीएफसी बैंक लि., भू तल, गुलाब भवन,

6, बहादुर शाह जफर मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली-110002

संख्या. कॉम/सी/जी/आर/ई-नीलामी/ 23/01/289//ई-1265126

2 भिलाई पॉवर हाउस स्टेशन में DDIS स्क्रीन हेतु निविदा

3 तिल्दा स्टेशन में DDIS स्क्रीन हेत निविदा निविदा

अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

ब्याज तथा चार्जेज की राशि के लिये एचडीएफसी बैंक लि. के चार्ज के अधीन होगा।

सम्पत्ति का विवरण

रामप्रस्थ ग्रीन्स, वैशाली एक्सटेंशन, ग्राम प्रहलादगढी (खसरा नं. 308

मिन, 313 मिन एवं 318 मिन) परगणा लोनी, तहसील एवं जिला

गाजियाबाद (उ.प्र), सुपर एरिया: 123.09 वर्ग मी., कवर्ड एरिया:

98.47 वर्ग मी. में स्थित ''सिविटेक फ्लोरेशिया पार्क सैफायर'' में

टावर-6 में फ्लैट नं. 204, दूसरा तल, छत के अधिकार के बिना।

चौहदीः पूर्वः भूमि खसरा नं. 202, 311 एवं रोड

पश्चिमः अन्य भूमि, उत्तरः भूमि खसरा नं. 317 एवं 314

दक्षिण: 18 मी. चौडा रोड

स्थानः नई दिल्ली, तिथिः 07.12.2023

कॉर्पोरेट देनदार का नाम

कॉर्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि

भावांलय (यदि कोई हो) का पता

कॉर्पोरंट व्यक्ति की परिसमापन प्रारंभ तिथि

नंबर और पंजीकरण संख्या

8. दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

शुरू कर दिया है।

विनांकः 11.12.2023

स्थानः नई विल्ली

परिसमापक का नाम. पता. ईमेल पता. टेलीकोन

4 भाटापारा स्टेशन में DDIS स्क्रीन हेतु निविदा

5 BMY चरोदा में होर्डिंग विज्ञापन हेत् निविदा

पीआर/आर/सीनि .डीसीएम/एपी/192

HDFC BANK

We understand your world

कंपनी सचिव

1 दर्ग स्टेशन में DDIS स्क्रीन हेतु निविदा

रायपुर मंडल के आय एवं लीजिंग करार हेतु ई-नीलामी निम्नानुसार आमंत्रित है:

असेटस विवरण

नीलामी

तारीख

HINDUJA HOUSING FINANCE महालक्ष्मी टॉवर, पहली मंजिल, एक्सिस बैंक के ऊपर, वैशाली, गाजियाबाद-201010 वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 के अंतर्गत प्रतिभृतिहित नियम 2002 के नियम

13(2) के अन्तर्गत यह सूचना जारी की जाती है। **हिंदजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड** से प्राप्त किये गये ऋण जो कि एन पी ए हो चुके हैं व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्नवर्णित बकाया राशि शेष थी, उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्नवर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन एवं हित तिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित दिनांकों को पंजीकृत डाक पावती सहित /स्पीड पोस्ट / करियर द्वारा आप सभी को भेजी गयी थी, जिसकी पावती प्राप्त नहीं हुई / जो बिना तामील वापस प्राप्त हो गयी है। मांग सुचना निम्नांकित दिनांकों में हमने आशय को स्पष्ट कर दिया था, कि आपके द्वारा सुचना में दर्शायी राशी 60 दिनों के अन्दर जमा नहीं करायी गयी तो उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार बैंक में बंधक सम्पत्तियाँ जो कि निम्नलिखित ऋणियों /जमानतदारों के नाम है, उनका आधिपत्य ले लिया जायेगा और कब्जा सचना / ई-नीलमी सचना में कर्जदार व गारंटरों की फोटो प्रकाशित की जायेगी। बकाया राशि का विवरण निम्रानसार है:

क्र सं.	कर्जदार /सह-कर्जदार/ गारंटर के नाम और एनपीए की तारीख	मांग सूचना की तारीख बकाया राशि	सिक्योर्ड आस्थतियों का विवरण		
1	श्री मोनीत नागपाल (दिवंगत) (कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से)	मांग सूचना की तारीख	फ्रीहोल्ड आवासीय फ्रीहोल्ड आवासीय पूरी पहले		
1	निवासी ई-102 मानसरोवर गार्डन, पश्चिमी दिल्ली, भारत-110015	13-09-2023	फ्राहाल्ड आवासाय फ्राहाल्ड आवासाय पूरा प मंजिल बिना छत के दाहिनी ओर मापने वाला क्षेत्र		
	सुश्री रीता नागपाल, निवासी ई-102 मानसरोवर गार्डन, मानसरोवर	बकाया राशि	वर्ग गज। ग्राम तातारपुर कॉलोनी में ब्लॉक-v पर स्थि		
	गार्डन, पश्चिमी दिल्ली, भारत - 110015	₹ 76,83,607/-	निर्मित संपत्ति नंबर 26, जिसे राजौरी गार्डन दिल्ली		
	खाता नं. DL/NCU/GHAU/A000001769 ऋण खाते को एनपीए	दिनांक 26-07-2023	नाम से जाना जाता है, सीमाएं: पूर्व में: प्लॉट नंबर 2		
	घोषित करने की तिथि: 30-06-2023	तक + ब्याज एवं कानूनी	पश्चिम में: प्लॉट नंबर 27, उत्तर में: सड़क और दक्षिण		
		प्रभार इत्यादी	कॉलोनी की सीमा		
2	श्री शारदा कुमारी निवासी आरसी -154, अर्चना एन्क्लेव खोरा,	मांग सूचना की तारीख	आवासीय फ्रीहोल्ड प्लॉट नं. 59, खसरा संख्या 310		
	गाजियाबाद, इंद्रापुरम, मेट्रो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत-201102	19-09-2023	एम में से, अर्चना एन्क्लेव में स्थित, ग्राम खोरा व		
	श्री छैल बिहारी निवासी आरसी -154, अर्चना एन्क्लेव खोरा, गाजियाबाद,	बकाया राशि	राजुस्व संपत्ति में, पर्गना लोनी, तहसील और जि		
	इंद्रापुरम, मेट्रो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत-201102	₹ 54,03,838/-	गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 110 वर्ग गज या		
	खाता नं. DL/NCU/GHAU/A000000651 और	दिनांक 25-08-2023	की 91.97 वर्ग मीटर. सीमाएँ: पूर्व में: रास्ता 30 फी चौड़ा, पश्चिम में: श्री श्रीराम का प्लॉट, उत्तर में: वेदप		
	DL/NCU/GHAU/A000001215 ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि: 30-06-2023	तक + ब्याज एवं कानूनी प्रभार इत्यादी	का प्लॉट और दक्षिण में : आर.पी. सिंह का प्लॉट		
-			~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~		
5	श्री मनीषा निवासी प्लॉट 4685 गली नंबर 1 और 6 अजीत नार गांधी नगर, दिल्ली, भारत - 110031	मांग सूचना की तारीख 13-09-2023	50 वर्ग गज की संपत्ति का हिस्सा, जिसका पुराना न 144-सी और नया नंबर IX/4685, खसरा नंबर 15		
	श्री मोहित जैन निवासी 1281 वकील पुरा गली जामा मस्जिद चंडीजी	13-09-2023 बकाया राशि	वना हुआ, अजीत नगर, गांधी नगर, ग्राम-सीलम		
	बौक, दिल्ली, भारत - 110006	वकाया साथ र ४९,८०,५९६/-	इलाक़ा शाहदरा, दिल्ली के क्षेत्र की आबादी में स्थि		
	खाता नं. UP/NCU/GHAU/A000000288 और	दिनांक 26-08-2023	है। सीमाएँ: पूर्व में: गली, पश्चिम में: अन्य की संपत्ति, उत्त		
	DL/NCU/GHAU/A000001353 ऋण खाते को एनपीए घोषित करने	तक + ब्याज एवं कानूनी	में: उक्त संपत्ति का हिस्सा और दक्षिण में: अन्य की संप		
	की तिथि: 30-06-2023	प्रभार इत्यादी	भाग-॥		
4	श्री तृप्ता जैन निवासी खसरा नंबर-1044/287 आबादी पूर्वी आज़ाद नगर	मांग सूचना की तारीख	तीसरी मंजिल पर निर्मित संपत्ति जिसका क्रमां		
	ग्राम घोंडली इलाक़ा शाहदरा दिल्ली, भारत - 110051	21-09-2023	46/3-सी है, प्लॉट नंबर 16, क्षेत्रफल 150 वर्ग ग		
	श्री अमन जैन निवासी खसरा नंबर-1044/287 आबादी पूर्वी आज़ाद नगर	23	खसरा नंबर 1044/287, पुराना खसरा नंबर 28		
	ग्राम घोंडली इलाका शाहदरा दिल्ली, भारत - 110051	बकाया राशि	पूर्वी आजाद नगर की आबादी में स्थित, कृष्णन नग		
	मिस्टर एक्सेलो फूड्स प्राइवेट तिमिटेड निवासी दूसरी मंजिल 515	₹ 39,10,076/-	ग्राम घोंडली क्षेत्र में इलाक़ा शाहदरा, दिल्ली		
	एक्सप्रेस टावर आजादपुर उत्तरी दिल्ली, भारत - 110033	दिनांक 08-09-2023	110051, सीमाएँ: पूर्व में: अन्य संपत्ति, पश्चिम में: सड़		
	खाता नं. DL/NCU/GHAU/A000000623 और		25 फीट चौड़ी, उत्तर में: अन्य संपत्ति और दक्षिण सड़क 25 फीट चौड़ी		
	DL/NCU/GHAU/A000001184 ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि: 30-08-2023	प्रभार इत्यादी	MAN ET AUG AIGH		
5	श्री कमतेश कुमारी निवासी मकान नंबर-61/डी शरीफाबाद राजापुर	मांग सूचना की तारीख	खसरा नंबर 671 में से 302.50 वर्ग गज यानी 252.5		
3	त्रा कमतश कुमारा ।नवासा मकान नवर-61/डा शराफाबाद राजापुर गाजियाबाद यूपी 201003	21-09-2023	वर्ग मीटर का भूखंड, गांव शरीफाबाद राजौर, परग		
	श्री राम किशन निवासी मकान नंबर-61/डी शरीफाबाद राजापुर	21.07.2023	लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, यूपी के क्षेत्र		
	गाजियाबाद यूपी 201003	बकाया राशि	स्थित है।		
	श्री गौरव गौरव निवासी मकान नंबर-61/डी शरीफाबाद राजापुर	₹ 29,24,076/-	87		
	गाजियाबाद यूपी 201003	दिनांक 08-09-2023 तक			
	खाता नं. DL/NCU/GHAU/A000000863 और्	+ ब्याज एवं कानूनी			
	CO/CPC/CPOF/A000000987 ऋण खाते को एनपीए घोषित करने	प्रभार इत्यादी			
	की तिथि: 30-08-2023				
6	श्री अरविन्द कुमार निवासी निवाड़ी रोड जगत पुरी गली नंबर-2 मोहल्ला न्यू डिफेंस कॉलोनी मोदीनगर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत - 201206		आवासीय रिक्त प्लॉट भूमि क्षेत्र जिसका माप 127.5 वर्ग. गज यानी 107 वर्ग. मीटर, खसरा नंबर 113		
	ाडफस कालाना मादानगर गाजियाबाद, उत्तर प्रदश, भारत - 201206 श्रीमती वर्षा राणा निवासी निवाड़ी रोड जगत पुरी गली नंबर-2 मोहल्ला न्यू	2011002027000	वन: नज याना १०७ वन: माटर, खसरा नवर ११३ अतम नगर पालिका मोढीनगर की सीमा से बा		
	डिफेंस कॉलोनी मोदीनगर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत - 201206	बकाया राशि	ग्राम बेगमाबाद बुदाना, मारूफ मोहल्ला डिफे		
	खाता नं. DL/NCU/GHAU/A00000838 और	₹ 14,05,744/-	कॉलोनी में स्थित, परगना जलालाबाद एवं तहसी		
	DL/NCU/GHAU/A000001148 ऋण खाते को एनपीए घोषित करने	दिनांक 19-07-2023 तक	मोदीनगर, जिला गाजियाबाद, उ.प्र. सीमाएँ: पूर्व में:		
	की तिथि: 30-06-2023	+ ब्याज एवं कानूनी प्रभार इत्यादी	फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम में: दीवार/बिजली घर, उत्तर		
		100000000000000000000000000000000000000	बिजली घर की भूमि और दक्षिण में : अन्य की भूमि		
7	श्री प्रशांत पंत निवासी 1243 सी ब्लॉक डबल टैंक के पास नंदग्राम, मेट्रो,	मांग सूचना की तारीख	क्रीहोल्ड आवासीय सिंगल स्टोरी हाउस नंबर स		
	गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत-201001	25-08-2023	1243 (छत के अधिकार के साथ) क्षेत्रफल 26.65 व		
	श्रीमती मंजू निवासी 1243 सी ब्लॉक डबल टैंक के पास नंदग्राम मेट्रो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत-201001	वकाया राशि	मीटर एवं ढका हुआ क्षेत्रफल 15.88 वर्ग मीटर, न ग्राम (नंदीकुंज) आवासीय कॉलोनी में स्थित, तहसी		
	보고 : (1000mm) 100mm (1000mm) 100mm) 100mm (1000mm) 1	₹ 11,25,586/-	प्राम (नदाकुज) आवासाय कालाना म स्थित, तहस एवं जिला गाजियाबाद (उ.प्र.) सीमाएँ: पूर्व में: मकान		
	खाता नं. DL/NCU/GHAU/A000001623 ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि: 31-07-2023	दिनांक 22-08-2023 तक + ब्याज एवं कानूनी	1250, पश्चिम में : 3.68 मीटर चौड़ी सड़क, उत्तर		
	बावित करने का लियः अन्तर-2023	प्रभार इत्यादी	मकान नं. सी-1244 और दक्षिण से : मकान नं. सी-124		
8	श्री पुष्पंद्र सिंह निवासी कृष्णा नगर कॉलोनी प्राइमरी स्कूल के पास डासना	मांग सूचना की तारीख	खाली प्लॉट का क्षेत्रफल 100 वर्ग गज यानी 83.61 व		
	मसूरी, गाजियाबाद, मेट्रो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत - 201302	14-08-2023	मीटर, खसरा नंबर 2094 मिन में से, डासना गांव		
	श्री द्वारूपा देवी निवासी वार्ड नंबर 10 कृष्णा विहार कॉलोनी डासना		आवादी में स्थित, तहसील एवं जिला. गाजियाबा		
	गाजियाबाद, डासना, मेट्रो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत - 201001	बकाया राशि	यूपी, सीमाएं: पूर्व में: मालिक की दीवार, पश्चिम		
	श्री सचिन राघव निवासी ्बी 49 कृष्णा कॉलोनी वार्ड नंबर 10 डासना	₹ 11,32,751/-	सड़क 16 फीट चौड़ी, उत्तर में: मालिक की दीवार अ		
	देहात, डासना, टोल टैक्स, मेट्रो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत - 201302	दिनांक 10-08-2023 तक	दक्षिण में: दूसरे की संपत्ति		
	खाता नं. DL/NCU/GHAU/A000000434 और	+ ब्याज एवं कानूनी			
	DL/NCU/GHAU/A000001204 ऋण खाते को एनपीए घोषित करने	प्रभार इत्यादी			
	की तिथि: 31-07-2023	min			
9	श्री निर्मला शर्मा निवासी रावत मकान नं. 990 द्वितीय तल एसएफ-4 इंद्रप्रस्थ आवास योजना लोनी गाजियाबाद, लोनी गाजियाबाद, मेट्रो,	मांग सूचना की तारीख 25-08-2023	कुल भूमि क्षेत्रफल 232 वर्ग मीटर में से, फ्लैट नंबर		
	इद्रप्रस्य आवास याजना लाना गाजियाबाद, लाना गाजियाबाद, मट्रा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत - 201001	25-08-2023	ऊपरी भूतल पर, क्षेत्रफल 399 वर्ग फुट यानी 37.0 वर्ग मीटर, फ्रीहोल्ड आवासीय भूखंड संख्या डी-96		
	श्रीमनोज कुमार निवासी रावत मकान नं. 990 द्वितीय तल एसएफ-4	वकाया राशि	पर निर्मित, आवासीय कॉलोनी इंद्रप्रस्थ (जीर्ड		
	इंद्रप्रस्थ आवास योजना लोनी गाजियाबाद, लोनी गाजियाबाद, मेट्रो,	₹ 9,05,948/-	योगना) में स्थित, तहसील और जिला गाजियाबा		

मीटर चौडा, उत्तर की ओर: सडक 12 मीटर चौडा और खाता नं. DL/NCU/GHAU/A000001850 ऋण खाते को एनपीए प्रभार इत्यादी दक्षिण: सीढियाँ/अन्य फ्लैट घोषित करने की तिथि: 31-07-2023 उक्त वर्णित ऋणियों / जमानतदारों को सलाह है कि (1) अधिक एवं विस्तृत जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी से मूल नोटिस प्राप्त कर लें (2) मांग सूचना में दर्शायी गयी बकाया राशि ब्याज एवं खर्चे आदि सहित मांग सचना की दिनांक के 60 दिनों के भीतर जमा करें ताकि सरफेसी अधिनयम के तहत अग्रिम कार्यवाही से बच सकें। दिनांक : 12-12-2023, स्थान : गाजियाबाद. प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत - 201001

Sr. Particulars

दिनांक 22-08-2023 तक

+ ब्याज एवं कानुनी

यूपी, सीमाएं: पूर्व में: खाली प्लॉट, पश्चिम में: सड़क 1;

Amount

Involved (Rs.)

Regulatory Current

Status

Action by

QUICKTOUCH

2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) क्विकटच टेक्नोलॉजीज लिमिटेड नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में सीआईएन: U74900DL2013PLC329536 मै. प्रिवी कॉर्पोरेट एंड फिस्कल एडवायजर्स पंजी. कार्यालय सं. 203, द्वितीय तल, डी-मॉल, नेताजी सुभाष लिमिटेड : (CIN: U74140DL2001PLC112230) प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 जिसका पंजीकृत कार्यालय : फ्लैट नं. 104, 1ला ई-मेल: info@quicktouch.co.in, वेबसाइट: www.quicktouch.co.in

प्रपत्र सं. आईएनसी-25ए

क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम,

तल, 4832/24, प्रहलाद हाउस, अंसारी रोड,

दरियागंज, नई दिल्ली-110002 में है, के मामले में

एतद्द्वारा आम जनता को सचित किया जाता है कि

यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत

केंद्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये

इच्छुक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के

लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए गुरुवार, 30

नवम्बर. 2023 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनसार कंपनी को एक

प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिए

कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि

किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे

वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी

को उसकी एक प्रति के साथ इस सचना के प्रकाशन

की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति

तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक

शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक

उत्तर क्षेत्र बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन.

सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें

पंजीकृत कार्यालय : फ्लैट नं. 104, 1ला तल.

4832/24, प्रहलाद हाउस, अंसारी रोड, दरियागंज,

प्रिवी कॉर्पोरेट फिस्कल एडवायजर्स लिमिटेड

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to all concerned

that our Client is entering into a

transaction to purchase entire property on

Plot No. N-44, Panchshila Park, New

Delhi-110017 admeasuring 800 square

yards, along with the ownership rights of

the entire said plot of land (hereinafter

referred to as the "Said Property") from

Mrs. Gita Khanna, wife of Mr. Chander Vir

Khanna resident of Canada and Mr. Vikram

Dewan, son of Late Dr. Madan Lal Dewan,

Any person or entity including bank or

financial institution having or claiming to have any right, title, interest, demand in respect of the Said Property or to any part thereof, including but not limited to sale,

collaboration, tenancy, agreement for sale,

mortgage, gift, inheritance, partition,

possession, decree or order of any court,

lacquisition, prohibition or any other

impediment with respect of the Said

Property or any part thereof and/or, having

any objection, are hereby required to give

notice in writing to the undersigned

accompanied with documentary proof

within 10 (ten) days from the date of

publication hereof, failing which it will be

presumed that no one has any objections for sale of the Said Property in favor of our

Client, and that our Client shall be

absolutely entitled to purchase the Said

Property, including possession thereof.

Claims and objections may be sent to:

1st Floor, The Great Eastern Center

70, Nehru Place, New Delhi - 110 017

Email: knm@knm.in; scecil@knm.in

Sudeep Cecil / Disha Talwar

KNM & Partners

Ph: 011 43115000

कृते एवं के लिये,

या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

नई दिल्ली-110002

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 11.12.2023

resident of USA.

इच्छक है।

असाधारण सामान्य सभा (ईजीएम) की सूचना का अनुशेष

दूरभाष : +919667009283

वीडियो कांफ्रेंस (''वीसी'') / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') के माध्यम से कार्यालय सं. 203, द्वितीय तल, डी–मॉल, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई

के पंजीकृत कार्यालय में शूक्रवार 15 दिसम्बर 2023 को अप. 01.00 बजे आयोजित होने के लिये अनुसचित कंपनी की असाधारण सामान्य सभा (ईजीएम) के आयोजन हेत् सूचना दिनांकित 16 नवंबर 2023 सदस्यों को पहले ही 21 नवंबर 2023 को प्रेषित कर दी गई है।

उपर्यक्त ईजीएम सूचना में एक अतिरिक्त मद सं. 5 जोडी गई है, जो कि कंपनी की आगामी ईजीएम में संव्यवहृत किये जानेवाले विशेष व्यवसाय के एक भाग की संरचना करती है तथा अनुशेष को मूल सूचना दिनांकित 16 नवंबर 2023, तथा सूचना में समाविष्ट टिप्पणियों एवं विवरणों के साथ, उसके एक आंतरिक भाग के रूप में माना

इस प्रकार सदस्यों से विनती है कि वे इस का संज्ञान प्राप्त करें तथा या तो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अथवा एजीएम में अपना मतदान करें।

ईजीएम की सचना का अनशेष कंपनी के सदस्यों को पहले ही प्रेषित कर दिया गया है, जो कि कंपनी की वेबसाइट www.quicktouch.co.in पर भी उपलब्ध है। ई—वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत की स्थिति में, कृपया श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, 25वां तल, ए विंग, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल्स कंपाउंड, एनएम जोशी मार्ग, लोवर परेल (पू.), मुंबई - 400 013; ईमेल : helpdesk.evoting@cdslindia.com से संपर्क करें अथवा उपर्युक्त नंबर अथवा अधोहस्ताक्षरकर्ता से संपर्क करें।

कृते क्विकटच टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हस्ता./-काजल गोयल

भूषण कुमार नरुला स्थान : दिल्ली DIN: 00003629 दिनांक : 11 दिसंबर 2023

> बिक्री सूचना लैंको विदर्भ थर्मल पावर लिमिटेड (परिसमापन में) CIN: U40100TG2005PLC045445 पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नंबर 4, सॉफ्टवेयर यूनिट लेआउट, हाईटेक सिटी, माधापुर, हैदराबाद- 500081, तेलंगाना

इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, 2016 के अंतर्गत 15वी ई-नीलामी बिक्री सूचना सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, 2016 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों अंतर्गत एतदृद्वारा सृचना दी जाती है कि मेसर्स लैंको विदर्भ ार्मल पावर लिमिटेड (परिसमापन में) ("**कॉर्पोरेट ऋणी**") की संपत्तियों को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 32(ए) से (डी) के अंतर्गत ई-नीलामी मंच के माध्यम से **"जैसी है जहां है", "जैसी है जो** कुछ हैं" "वहां जो कुछ मौजुद है", "बिना शिकायत आधार" और "बिना रिकोर्स आधार" पर एकत्रित/विभाजन के आधार पर बिक्री प्रस्तावित की जा रही है। बिक्री के लिए उक्त प्रस्ताव किसी भी प्रकार की वारंटियों और क्षतिपूर्ति के बिना है। नीचे दी गई तालिका में वर्णित संपत्ति का बोलीकरण ऑनलाइन ई-नीलामी सेवा प्रदाता, मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड (एमएसटीएस) के माध्यम से वेबसाइट www.mstcecommerce.com के माध्यम से होगा।

	वत बोलीदाता द्वारा आवश्यक प्रपत्र, शपथ पत्र, घोषणा आदि थ प्रत्यर्पणीय जमा प्रस्तुत करना*	12.12.2023 से 26.12.2023 तक		
	आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जाने वाली बिना ब्याज की गीय राशि	लॉट नं. 9 के लिए 2 करोड़ रु. लॉट नं. 10 के लिए 10 लाख रु.		
स्थल	त्र दौरे/निरीक्षण की तिथि 30.01.2023 से 05.01.2024 तक			
ईएमड	ी जमा करने की अंतिम तिथि	ा करने की अंतिम तिथि 08.01.2024		
नीलाम	गि की तिथि और समय	10.01.2024 संभावित, अप. 01:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक		
क्र. सं	ई-नीलामी में बिक्री के लिए उपलब्ध परिसंपत्तियों के निम्नलिखित समृह्र/लॉट	आरक्षित मूल्य (रु. में)	ईएमडी (रु. में)	
1.	लॉट 9:# वर्धा के पास संयंत्र और बंधुआ गोदाम भूमि क्षेत्र	3,59,62,00,000/- + लागू स्टाम्प डयूटी व कर	15,00,00,000/-	
2.	लॉट 10:# वर्धा के पास उमरी मेघे भूमि	8,00,00,000/- + लागू स्टाम्प डयूटी व कर	80,00,000/-	

स्वीकार्य हैं। उन्हें ऊपर वर्णित अनसार प्रत्यर्पणीय राणि के साथ लॉट को भी नए सिरे से इंगित करना चाहिए जिसके लिए वे अब आवेदन कर रहे हैं। वर्धा. महाराष्ट्र के पास। कपया ध्यान दें कि प्रारंभिक जमा. पात्रता शर्तों को परा करने और गोपनीयता उपक्रम एवं

ं वे सभी आवेदक जिन्होंने पहले किसी ई-नीलामी में बोली आवेदन पत्र जमा किया है, उन्हें केवल ईमेल और हार्ड कॉपी

द्वारा एक उपक्रम पष्टि भेजने की आवश्यकता है कि 15वीं ई-नीलामी बिक्री की नई समय-सारणी और नियम व शर्तें उन्हें

अन्य नियमों और शर्तों के निष्पादन करने पर सभी दस्तावेजों. एनसीएलटी आदेशों. एनसीएलएटी याचिका, जिला कलेक्टर

इच्छक आवेदक बोली आवेदन पत्र, घोषणा और वचन फॉर्म, अन्य फॉर्म, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम और शर्तों से युक्त पुर्ण 15वीं ई-नीलामी प्रक्रिया जानकारी दस्तावेज को देख सकते हैं, जो ई-नीलामी मंच www.mstcecommerce.com पर और कारपोरेट ऋणी की वेबसाइट http://www.lancovidarbha.com पर भी उपलब्ध है। परिसमापक को किसी भी कारण को बताए बिना किसी भी समय ई-नीलामी की किसी भी शर्त को स्वीकार करने या अस्वीकार करने या रह करने या बढ़ाने या संशोधित करने का पूर्ण अधिकार है। ई-नीलामी बोली के बारे में किसी भी पूछताछ के लिए, संपर्क करें: **सुश्री उन्नति सैनी** +91-7471118456 **या** रमएसटीसी लिमिटेड हेल्पडेस्क नंबर- 011-23212357/23215163/23217850. ई-मेलः nroopn7@mstcindia.in या परिसंपत्ति/बिक्री से संबंधित पुछताछ के लिए कृपया **श्री विजय कुमार गर्ग**, परिसमापक से +91-9873241081 पर संपर्क करें या liquidation_lvtpl@sumedhamanagement.com पर ई-मेल करें या सुश्री सुखजीत कौर से मोबाइलः +91 9038685318 पर संपर्क करें।

श्री विजय कुमार गर्ग, परिसमापक

लैंको विदर्भ थर्मल पावर लिमिटेड के विषय में Reg. No. IBBI/IPA-002/IP-N00359/2017-18/11060

आवासीय पताः फ्लैट नंबर 1402, टॉवर ए. पत्राचार के लिए परियोजना विशिष्ट पताः जीपीएल ईडन हाइट्स, सेक्टर 70, दरबारीपुर मार्फ्त सुमेधा मैनेजमेंट सॉल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड रोड, गुरुग्राम- 122101, हरियाणा। बी-1/12, दूसरी मंजिल, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली- 110029 पंजी. ईमेल आईडी: संपर्क नंबरः 011-4165 4481/85, gargvijay1704@gmail.com र्डमेल आईडी (प्रक्रिया विशिष्ट)

मोबाईल नंबर +91 9611938833

liquidation_lvtpl@sumedhamanagement.com स्थानः नई दिल्ली दिनांक: 12.12.202**3**

For details of Outstanding litigations, please refer the Information Memorandum available on the website of the Company i.e. REGULATORY/STATUTORY ACTION TAKEN BY SEBI OR STOCK EXCHANGE AGAINST THE PROMOTERS IN LAST 5 FINANCIAL YEARS:

Sr. No.	Particulars	Regulatory Action by	Current Status	Amount Involved (Rs.)
1	During February 2013, Raoof Razak Dhanani acquired 27.16% shareholding of Sayaji Hotels Limited (SHL) from Clearwater Capital Partners Cyprus Limited. However pursuant to the said open offer, the total promoters shareholding in SHL increased to 79.90% thereby breaching the requirement of maintaining minimum public shareholding of 25% under rule 19 A of the SCRR. Accordingly, SEBI vide order dated 29th September, 2017 imposed a penalty of INR 1.20 million on SHL		Closed	12,00,000/-
2	SHL received a show cause notice from SEBI in relation to (a) failure of SHL to report acquisition of 725,000 shares of SHL by Ahilya Hotels Limited and (b) failure of SHL to report sale of 600,000 shares of SHL by Aries Hotels Private Limited. SEBI vide order dated 31st January, 2018, issued an adjudication order directing SHL to pay a penalty of INR 1.50 million.	600065572s	Closed	15,00,000/-
3	SHL was in non-compliances with Regulation 13(3), 27(2), 31, 17(1), 17(1A), 18(1), 19(1)/19(2), 20(2)/(2A), 21(2) and 28(1) of the SEBI Listing Regulations. BSE directed SHL to ensure compliance with the regulations	0078000	Closed	NIL

BSE, they waived the through email dated 10th May, 2021. SHI received an email from RSE direction SHI to pay a fine of INR 0.09 RSE

and also pay a fine aggregating to INR 0.33 million. After explanation to

SHL received an email from BSE directing SHL to pay a fine of INR 0.09 million for non-submission of the financial results for the quarter and year ended March 31, 2020. The Company's waiver request was partly approved by BSE through email dated 27th July, 2021 and SHL partly paid the amount of INR 0.2596 million.	100000	Closed
SHL was in non-compliance with (a) the composition of the board of directors of SHL and (b) the constitution of the stakeholder relationship	12.000	Closed

NIL Closed ectors of SHL; and (b) the constitution of the stakeholder relationship committee. BSE directed SHL to ensure compliance and also pay a fine 2.59.600/-Closed

aggregating to INR 0.75 million. SHL requested BSE to waive the fine imposed. BSE waived the fine through email dated 27th July, 2021. SHL was penalized by BSE to pay a fine of INR 0.18 million for non- BSE submission of the consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2020. BSE partly waived fine through email dated 27th July, 2021 and directed SHL to pay a sum of INR 0.2596 million. BSE directed SHL and the promoters of SHL to pay the fine outstanding as BSE Closed NIL

request of SHL, BSE considered and waive off the fine through email dated 19th July, 2021. SEBI issued notice to Promoters and promoter group of SHL, in the matter | SEBI of alleged irregularities in the shares of SHL in relation to:

failure of (Late) Sajid Dhanani to make and open offer for acquisition of 0.40% shareholding of SHL; (ii) failure of (Late) Sajid Dhanani, Suchitra Dhanani, Anisha Dhanani,

Aries Hotels Private Limited and Alishan Computer System Private Limited to report the divestment of 15.34% shareholding of SHL; (iii) failure of (Late) Sajid Dhanani and Ahilya Hotels Limited to make an open offer and disclosures for acquisition of 10.52% shareholding of;

SHL from 7.63% to 2.54%

(iv) failure of Suchitra Dhanani to disclose change in her shareholding in Raoof Dhanani received a show cause notice by SEBI, in relation to SEBI violation of Takeover Regulation, 2011. SEBI subsequently issued and

Raoof Dhanani, Anisha Dhanani, Sumera Dhanani, Sadiya Dhanani, Saba SEBI Closed 2.21,30,000/-Dhanani and certain erstwhile promoters and promoter group members of Liberty Phosphate Limited (the Noticees), received a common show cause notice by SEBI, in relation to violation of Regulation 11(1) read with Regulation 14(1). All the Noticees filed a common consent application and rectified consent application before SEBI. SEBI rejected the consent application. Subsequently, the Securities Applellate Tribunal permitted SEBI to withdraw the rejection letter issued the notices. Thereafter, pursuant to letter dated July 29, 2016 issued by the noticees to SEBI, the noticees requested SEBI to pass an appropriate consent order in the matter, assuming non-compliance with the SEBI Insider Trading Regulations, 1992. Subsequently, the noticees submitted a revised settlement application for INR 22.13 million in relation to the common consent application. SEBI vide its Settlement order dated 1st November, 2017 directed noticees to pay. The applicants paid the settlement charges. Liberty Phosphate Limited, Raoof Razak Dhanani and other directors and SEBI 13,60,000/-Closed compliance officers of Liberty Phosphate Limited received a show cause notice for violation of the code of conduct specified in SEBI Insider Trading Regulations, 1992. Certain noticees, including Raoof Razak Dhanani,

towards settlement charges to the SEBI BRIEF DETAILS OF OUTSTANDING CRIMINAL PROCEEDINGS AGAINST THE PROMOTERS: For details of Outstanding litigations, please refer the Information Memorandum available on the website of the

Subsequently, SEBI vide its Settlement order dated 31st October, 2017

directed the applicants to pay an aggregate amount of INR 1.36 million

jointly filed a consent application before SEBI.

Company i.e. www.shilindore.com.

PARTICULARS OF HIGH, LOW AND AVERAGE PRICES OF THE SHARES OF THE SAYAJI HOTELS LIMITED ("DEMERGED COMPANY") FOR THE PRECEEDING THREE YEARS:

The high, low and average market prices recorded on the Stock Exchanges during the last three years and the number of Equity Shares traded on these days are stated below:

BSE:

Year	High (Rs.)	Date of High	Low (Rs.)	Date of Low	Average market price of the Equity Shares for the year (Rs.)
2022-23	425.00	24/10/2022	200.00	21/06/2022	300.61
2021-22	298.70	04/01/2022	179.85	12/05/2021	237.65
2020-21	288.00	06/01/2021	145.70	03/11/2020	188.36

Notes: Average market price denotes average of weighted average price of the year. In case of two days with the same high or low price, the date with the high volume has been considered. MATERIAL DEVELOPMENT AFTER THE DATE OF LAST FINANCIAL STATEMENTS AS ON MARCH 31, 2023:

Except as mentioned below, in the opinion of our Board, there have not arisen since the date of Financial Statements as on March 31, 2023, any circumstances that materially or adversely affect or are likely to affect our profitability taken as a whole or the value of our assets or our ability to pay our material liabilities within the next twelve

Hon'ble NCLT has, vide an order dated July, 11th 2023 approved the Composite Scheme. The Effective date of

the Composite Scheme is August 1st, 2023 with the appointed date of April 1, 2022, Accordingly, in accordance with the scheme, SHIL has allotted 30,46,605 Equity Shares of Rs. 10 each to the Equity shareholders of SHL as on the Record date in the ratio 4:23 and the existing share capital of 50,000 equity shares of SHIL was cancelled.

Our Board of Directors and Committee was reconstituted and KMP's were appointed.

Our Company received in-principle approval from BSE on October 16, 2023 vide its letter DCS/AMAL/TL/IP/2941/2023-24. Further our Company was granted an exemption from the application of Rule 19(2) (b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 by the SEBI vide its letter SEBI/HO/CFD/DCR/RAC-1/P/OW/2023/43787/1 dated October 30, 2023.

 The registered office of the Company has been shifted from F1 C2 Sivavel Apartment 2 Alagappa Nagar, Zamin Pallavaram, Chennai, Tamil Nadu, India, 600117 to F1 C3 Sivavel Apartment 2 Alagappa Nagar, Zamin Pallavaram, Chennai, Tamil Nadu, India' w.e.f22nd November, 2023 within the local limits of the city.

W. SUCH OTHER INFORMATION AS MAY BE SPECIFIED BY THE BOARD FROM TIME TO TIME For and on behalf of Sayaji Hotels (Indore) Limited

Name: Mangesh Deshpande Place: Chennai Designation: Company Secretary and Compliance Officer

Financial Performance Kshipra Restaurants Private Limited financial information with respect to details of reserves (excluding revaluation reserves), sales, profit after tax, earnings per share, diluted earnings per share and net asset value, derived from the audited | 0.

Particulars	As at March 31, 2023
Equity Share Capital	75.25
Reserve & Surplus	255.49
Net Worth	330.74
Total Revenue	1549.46
Net Profit / (Loss) after Tax (after considering Comprehensive Income)	207.54
EPS (in ₹) of face value ₹ 10 each	
Basic	27.58
Diluted	27.58
Net asset value per share (in ₹)	43.95

Cases by our Promoters

Other material pending proceedings

www.readwhere.com

Criminal proceedings

Total

- M. INTERNAL RISK FACTORS Our Company, and group companies are party to certain litigation and claims. These legal proceedings are pending at different levels of adjudication before various courts and regulatory authorities. Any adverse decision may make us liable to liabilities/penalties and may adversely affect our reputation, business and financial status.
 - 2. Our operations are dependent on our ability to attract and retain qualified personnel, including our senior management and any inability on our part to do so, could adversely affect our business, results of operations and financial condition.
 - The hospitality industry is intensely competitive and our inability to compete effectively may adversely affect our business, results of operations and financial condition.
 - We are heavily dependent on our Promoters, Directors and Key Managerial Personnel for the continued success of our business through their continuing services and strategic guidance and support.
- such expenses may have an adverse effect on our business, results of operations and financial condition.

ANY OF THE GROUP COMPANIES:

Types of proceedings	Number of cases	Amount (₹ in Lakhs)
Cases against our	Company	
Criminal proceedings	1	NA
Statutory or regulatory proceedings	12	19.34
Other pending proceedings	3	8.98
Tax proceedings	NIL	NIL
Total	16	28.32
Cases by our Co	ompany	(i)
Criminal proceedings	4	29.18
Other pending proceedings	16	348.94
Total	20	378.12
Cases against our Directors (other than individual Promoters)		
Criminal proceedings	1	2255.70
Statutory or regulatory proceedings	1	60.10
Other material pending proceedings	1	24.20
Tax proceedings	NIL	NIL
Total	3	2340.00
Cases by our Directors (other that	n individual Promoters)).
Criminal proceedings	NIL	NIL
Other material pending proceedings	8	382.80
Total	8	382.80
Cases against our Promoters	1	
Criminal proceedings	3	2282.80
Statutory or regulatory proceedings	1	60.10
Other material pending proceedings	4	135.50
Tax proceedings	NIL	NIL
Total	8	2478.40

Several expenses incurred in our operations are relatively fixed in nature, and our inability to effectively manage OUTSTANDING LITIGATIONS AND DEFAULTS OF THE RESULTING ENTITY, PROMOTERS, DIRECTORS OR

NIL


10

10

on December 30, 2020 (i.e. INR 0.14 million) is not paid. BSE would proceed to freeze the demat accounts of the promoters of SHL. After due NIL

adjudication order 23rd February, 2018 directed Racof Razak Dhanani to

483.49 pay a penalty of INR 1.60 million. 483.49







Closed

16,00,000/-

Date: 12-12-2023

